

उत्तर प्रदेश शासन  
 संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग—२  
 संख्या—क०नि०—२—१०४१ / ग्यारह—९(१) / २००८—उ०प्र०अधि०—५—२००८—आदेश—(१३६)—२०१५  
 लखनऊ: दिनांक: २२ जुलाई, २०१५

## अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, २००८ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, सन् २००८) की धारा ४ की उपधारा (४) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची—चार में दिनांक २३ जुलाई, २०१५ से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

## संशोधन

उक्त अनुसूची—चार में, क्रम संख्या ३ एवं ४(ग) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण	कर का बिन्दु	कर की दर
1	2	3	4
3	पेट्रोल	नि०/आ०	26.80% या रु० 16.74 प्रति लीटर जो भी अधिक हो
4(ग)	डीजल आयल जैसा कि यूनाइटेड प्राविन्सेज सेल्स आफ मोटर स्पिरिट, डीजल आयल एण्ड एल्कोहल टैक्सेशन ऐक्ट, १९३९ में परिभाषित है, क्रम संख्या— ४(क) एवं ४(ख) में वर्णित मामलों के अतिरिक्त।	नि०/आ०	17.48% या रु० 9.41 प्रति लीटर जो भी अधिक हो

आज्ञा से,

  
 ( बीरेश कुमार )  
 प्रमुख सचिव